



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 452]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 1983/अश्विन 19, 1905

No. 452]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 1983/ASVINA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1983

का. आ. 725(अ)/18कक/आईडीआरए/83.—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के का. आ. 790(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1982 द्वारा यथा संशोधित आदेश सं. 734(अ)/18कक/आई डी आर ए/82, तारीख 12 अक्टूबर, 1982 द्वारा (जिसे हममें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), मैसर्स कान्ति काटन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, सुरेन्द्र नगर, गुजरात नामक संपूर्ण औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन 11 अप्रैल, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और गुजरात राज्य वस्त्र निगम को उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ;

और, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 285(अ)/18कक/आई डी आर ए/83, तारीख 11 अप्रैल, 1983 द्वारा उक्त आदेश की अवधि को, 11 अक्टूबर, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया गया था ;

और, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध गुजरात राज्य वस्त्र निगम के अधीन 11 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बना रहे ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 11 अक्टूबर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा ।

[फा. सं. 3(1)/82-सी ए एम]

ए. पी. सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 11th October, 1983

S.O. 725(E)/18AA/IDRA/83.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 734 (E)/18AA/IDRA/82, dated the 12th October, 1982 as amended vide S.O. 790

(E), dated the 9th November, 1982 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole undertaking known as Messrs Kanti Cotton Mills Private Limited, Surendranagar, Gujarat, was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of 6 months upto and inclusive of the 11th April, 1983 and the Gujarat State Textile Corporation was authorised to take over the management of the said industrial undertaking;

And, whereas, by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 285(E)/18AA/IDRA/83, dated the 11th April, 1983, the period of the said order was extended for a further

period of six months upto and inclusive of 11th October, 1983;

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the public interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Gujarat State Textile Corporation for a period of six months upto and inclusive of the 11th April, 1984;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of the Industrial (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 11th April, 1984.

[File No.3 (1)/82-CUSI
A. P. SARWAN, Jt. Secy.]